



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 अग्रहायण, 1941 (श०)

संख्या- 980 राँची, बुधवार,

27 नवम्बर, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

22 नवम्बर, 2019

संख्या-5/आरोप-1-22/2018-26958 (HRMS)-- चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री गौरांग महतो, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 855/03, गृह जिला-प0 सिंहभूम), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रामगढ़ के विरुद्ध रामगढ़ जिला अंतर्गत रामगढ़ प्रखण्ड के नरेगा योजना सं0-07/2006-07 के क्रियान्वयन से पूर्व योजना स्थल की भूमि की जाँच नहीं करने, उप विकास आयुक्त द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति आदेश के शर्त/निर्देश का अनुपालन नहीं करने, योजना स्थल पर कार्य नहीं होने से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद भी 13,100/- रूपया का भुगतान करने एवं राजस्व की क्षति होने संबंधी आरोप, जैसा कि उपायुक्त, रामगढ़ के पत्रांक-769, दिनांक 27.08.2018 द्वारा गठित प्रपत्र-‘क’ में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री महतो के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री महतो को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्री महतो द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल श्री गौरी शंकर मिंज, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।
5. श्री महतो के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, रामगढ़ को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।
6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	GAURANG MAHTO JHK/JAS/54	गौरांग महतो, झा0प्र0से0, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रामगढ़ के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
